

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.10.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 29.10.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बडी कार्यवाही. 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 60 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे 40 लीटर कच्ची बरामद, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व थाना परसपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.10.2022

02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 02 किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 02 मादक पदार्थ तस्कर-01.सतेन्द्र पाण्डेय, 02. रंजीत गौतम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सतेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र दिलीप पाण्डेय नि0 ढाली चौरा थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर।
02. रंजीत गौतम पुत्र मंगरे नि0 आलादत्त खम्हरिया बंजरहा थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-438/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-439/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा।
02. 01 अदद परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 धर्मराज शर्मा मय टीमा

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.10.2022

चोरी की घटनाओं का खुलासा, 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/लूटेरो/नकबजनों/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने एवं चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर 02 शातिर चोरों-01. घनश्याम, 02. फूलचन्द को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 अदद पायल सफेद धातु, 02 अदद बिछुआ सफेद धातु व 900 रु नगद बरामद किया गया। बरामद सामान के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 13.10.2022 को अयाह चौराहा स्थित वादिनी जानकी देवी पत्नी गोविन्द कुमार के घर में चोरी की थी व दिनांक 27.10.2022 ग्राम कोल्हुआ स्थित वादिनी शकुन्तला देवी पत्नी सियाराम के घर में चोरी की अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. घनश्याम पुत्र जयनाथ नि0 लमुइया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. फूलचन्द पुत्र रामहेतु नि0 कोल्हुआ थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-413/22 धारा 380,411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-430/22 धारा 380,411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 02 अदद पायल सफेद धातु।
02. 02 अदद बिछुआ सफेद धातु।
03. 900 रु0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।